



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2017/माघ 26, 1938

No. 412]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2017/MAGHA 26, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

का.आ. 455(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधा रहित रीति में सीधे उनकी हकदारियों को प्राप्त करवाने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट स्कीमों में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्फलित है;

सारणी

क्र. सं.	स्कीम का नाम	प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण हेतु पात्र फायदाग्राही/सेवा समर्थक
1	गृह कल्याण केन्द्रों में योग कक्षाओं का संचालन	योग प्रशिक्षक
2	गृह कल्याण केन्द्र को वार्षिक अनुदान	गृह कल्याण केन्द्र के कर्मचारीवृंद
3	आओ और खेलो स्कीम हेतु सहायता	सुविधा का उपभोग करने वाले सरकारी कर्मचारी
4	केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और कीड़ा बोर्ड द्वारा कोचिंग अकादमियां तथा ग्रीष्मकालीन शिविर	कोच

अतः अब, केन्द्रीय सरकार का कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इससे पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात् :-

1. (1) उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट स्कीमों के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक व्यक्तियों (पात्र फायदाग्राही या सेवा समर्थक) से अपेक्षा की जाती है कि वे आधार को रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार का अधिप्रमाणन करवाएँ।

(2) उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट स्कीमों के अधीन प्रसुविधा का उपभोग करने के इच्छुक व्यक्ति को जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 28 फरवरी, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, गृह कल्याण केन्द्र तथा केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड से आधार के लिए ऐसे फायदाग्राहियों को, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं, नामांकन सुविधाएँ प्रदान करने के अपेक्षा की जाती है और यदि पास-पड़ोस में अवस्थित कोई आधार नामांकन केन्द्र नहीं है तो गृह कल्याण केन्द्र तथा केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के सहयोग से सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएँ उपलब्ध करा सकेगा या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएँ प्रदान कर सकेगा:

परन्तु व्यक्तियों का आधार नियत किए जाने के समय तक, उक्त स्कीमों के अधीन व्यक्तियों को प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) पैरा 2 उपपैरा 2 में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की एक प्रति, तथा

(ख) (i) फोटो सहित बैंक की पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड; या (iii) पैन कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) चालान अनुज्ञप्ति; या (vi) राशन कार्ड; या (vii) सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान कार्ड।

परन्तु यह और कि उक्त उपरोक्त दस्तावेजों की गृह कल्याण केन्द्र तथा केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड द्वारा उनकी संबंधित स्कीम हेतु विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।

2. (1) सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गृह कल्याण केन्द्र तथा केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड सभी व्यवस्थाएं करेगा जिसके अन्तर्गत सेवा समर्थकों या फायदाग्राहियों को उक्त स्कीमों के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकताओं के प्रति उन्हें जागरूक बनाने के लिए सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार भी है और यदि उन्होंने नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 28 फरवरी, 2017 तक निकटतम नामांकन केन्द्रों में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी।

(2) यदि, फायदाग्राही, पास पड़ोस में नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में समर्थ नहीं है तो गृह कल्याण केन्द्र तथा केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के सहयोग से नामांकन सुविधाएं सृजित करें। फायदाग्राही गृह कल्याण केन्द्र तथा केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड को नाम, पता, मोबाइल नम्बर, आदि अपने ब्यौरे देकर नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर करा सकेगा।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 1194940/CWO/2016-DBT Cell]

देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2017

S.O. 455(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the schemes specified in the Table below involve expenditure incurred from the consolidated fund of India;

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheme	Eligible beneficiaries / Service enablers for the purpose of Direct Benefit Transfer
1.	Conduct of Yoga Classes at Grih Kalyan Kendras	Yoga Instructors
2.	Annual Grant to Grih Kalyan Kendras	Staff of Grih Kalyan Kendras
3.	Assistance for come and play scheme	Government employees availing the facility
4.	Coaching Academies and summer camps by the Central Civil Services Cultural and Sports Board	Coaches

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training hereby notified the following, namely:—

1. (1) Individuals (eligible beneficiaries or service enablers) desirous of availing benefits under the schemes specified in the Table above are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing benefits under the schemes specified in the above Table and is not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 28th February, 2017, in case he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, Grih Kalyan Kendras and the Central Civil Services Cultural and Sports Board are required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in absence of such Aadhaar enrolment centers located in the vicinity, the Grih Kalyan Kendras and the Central Civil Services Cultural and Sports Board may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the said schemes shall be given to the individual, subject to the production of the following documents, namely:—

- (a) (i) Aadhaar enrolment ID slip if he or she has enrolled; or
- (ii) a copy of request made for Aadhaar enrolment as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and
- (b) (i) Bank Passbook along with Photo; or (ii) Voter's ID card; or (iii) PAN card; or (iv) Passport; or (v) Driving License; or (vi) Ration card; or (vii) Photo ID card issued by the Government:

Provided further that the above said documents shall be checked by an officer, specifically designated by Grih Kalyan Kendras and the Central Civil Services Cultural and Sports Board, for their respective schemes.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free delivery of benefits, Grih Kalyan Kendras and the Central Civil Services Cultural and Sports Board shall make all the arrangements including wide publicity through notices shall be given to service enablers or beneficiaries to make them aware of the requirements of Aadhaar to receive the benefits under the said schemes and in case they are not enrolled, they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centers by 28th February, 2017.

(2) In case beneficiaries are not able to enroll due to non availability of enrolment centers in the vicinity, Grih Kalyan Kendras and Central Civil Services Cultural and Sports Board are required to create enrolment facilities at convenient locations by coordinating with UIDAI Registrars. The beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their details, such as, name, address, mobile number, etc., to Grih Kalyan Kendras and Central Civil Services Cultural and Sports Board .

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 1194940/CWO/2016-DBT CELL]

DEVESH CHATURVEDI, Jt. Secy.